



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम् विधान सभा

प्रथम सत्र

अंक-06

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2019

(माघ 19, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री टी.एस.सिंहदेव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-2019 पटल पर रखा ।

2. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2019 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि - आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना शनिवार, दिनांक 09 फरवरी, 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

01. पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दिये जाने हेतु दिनांक 09 एवं 10 फरवरी, 2019 को (दो दिवसीय) प्रबोधन कार्यक्रम विधान सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष क्रमांक-01 में प्रातः 11.00 बजे से आयोजित है। इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में देश एवं प्रदेश के संसदविद व्याख्यान देंगे। विस्तृत कार्यक्रम पृथकतः प्रदाय किया जा चुका है। आप समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम से लाभान्वित हों।

02. समस्त सम्माननीय सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, शांति सरोवर, विधान सभा मार्ग, सड्डू, रायपुर द्वारा सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दोपहर 1.30 बजे से 'ब्रह्मा भोजन' का आयोजन किया गया है। आप समस्त सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि दिनांक 11 फरवरी, 2019 को भोजनावकाश हेतु सदन की बैठक स्थगित होने के उपरांत 'ब्रह्मा भोजन' में सम्मिलित हों।

पूर्वाह्न 11.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 (माघ-22, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा